

प्रेस नोट
मीडिया सेल, एटीएस उ०प्र०

बांदीपुरा, कश्मीर में गिरफ्तार 04 आतंकियों का सहयोगी यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार

दिनांक: 05 फरवरी 2018

आज दिनांक 05 फरवरी को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध आतंकी शेख अली अकबर निवासी - कसेरा पोखरा, थाना-जमनिया, गाजीपुर, उ०प्र० को यूपी एटीएस टीम द्वारा लखनऊ के लोहिया पथ क्षेत्र से पूछताछ हेतु एटीएस कार्यालय लाया गया जहाँ पूछताछ के उपरान्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस को सूचना मिल रही थी की उक्त संदिग्ध कश्मीर में चल रही आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है जिसकी एटीएस द्वारा निगरानी की जा रही थी।

अभियुक्त का विवरण



शेख अली अकबर

ग्राम – कसेरा पोखरा, थाना-
जमनिया, जनपद गाजीपुर, उ०प्र०

- बांदीपुरा कश्मीर में गिरफ्तार 04 आतंकियों के सहयोगी शेख अली अकबर को लोहिया पथ से 11.05 बजे एटीएस टीम द्वारा पूछताछ के लिए एटीएस कार्यालय लाया गया, पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।
- इसका सम्बन्ध जिला-बांदीपुरा, कश्मीर में कल पकड़े गए 04 अभियुक्तों से है जो आतंकी गुप से सम्बंधित हैं। उन चारों से पूछताछ में पता चला था कि गाजीपुर यूपी का अली उनसे मिला हुआ है। हथियार सप्लाई करने के लिए उसने 40,000 रुपये लिए हैं।
- यूपी एटीएस ने निगरानी (surveillance) शुरू की तो पाया कि अली लखनऊ आया है। प्रयास के बाद इसे लोहिया पथ के पास ढूँढ लिया गया।
- शेख अली अकबर whatsapp कॉल के माध्यम से आतंकियों के संपर्क में आया था। जिस पर बाद में यह स्वयं भी कॉल करके बात-चीत करता था।
- इसे पकिस्तान में बैठे आतंकियों ने ट्रेनिंग के लिए पकिस्तान भी आमंत्रित किया था जहाँ यह जा नहीं पाया।
- अभियुक्त को पुलिस उपाधीक्षक विजयमल यादव की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अली के विरुद्ध प्रमाण

- कश्मीर से गिरफ्तार व्यक्तियों के बयान में अली का आतंकवादियों से सम्बन्ध होना आया है।
- जम्मू एवं कश्मीर से 40,000 रु० हथियार सप्लाई के लिए प्राप्त किये, बैंक से प्रमाणित है, स्वीकार भी करता है।
- इसके फोन से जेहादी विडियो आदि मिले हैं जिसपर जांच जारी है।

अग्रिम पूछताछ

- इनके साथ साथ कौन कौन हैं ?
- कश्मीर से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ उसके आधार पर कार्यवाही।
- अली के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किये जा रहे हैं।

-असीम अरुण, आईजी-यूपी एटीएस